

मेघालय के मुख्यमंत्री की सूची (वर्ष 1972 से अब तक)

[S samanyagyan.com/hindi/gk-chief-ministers-of-meghalaya](http://samanyagyan.com/hindi/gk-chief-ministers-of-meghalaya)

मेघालय के मुख्यमंत्री (1972-2021): (Chief Ministers of Meghalaya Since 1972 to till date in Hindi)

मेघालय सामान्य ज्ञान:

मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय का क्षेत्रफल लगभग 22,429 वर्ग किलोमीटर है। मेघालय के उत्तर में असम, जो कि **ब्रह्मपुत्र नदी** द्वारा विभाजित होता है और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है। मेघालय, पहले **असम** राज्य का हिस्सा था, जिसे 21 जनवरी 1972 को विभाजित कर नया राज्य बनाया गया। इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से और दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। यहाँ खासी, जैतिया और गारों **आदिवासी समुदाय** के लोग मुख्यतः रहते हैं। मेघालय के मध्य और पूर्वी भाग में खासी और जैतिया पहाड़ियाँ और एक विशाल पठारी क्षेत्र है। पहाड़ की तलहटी पर समतल भूमि की संकरी पट्टी **बांग्लादेश** की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगी है।

मेघालय शब्द का अर्थ:

संस्कृत और अन्य भारतीय बोलियों में मेघालय शब्द का अर्थ '**बादलों का घर**' है। इस राज्य में कई पर्वत श्रृंखलाएं होने के कारण यह नाम सबसे उपयुक्त है।

Quick Info About Chief Ministers of Meghalaya in Hindi:

वर्तमान मुख्यमंत्री	कॉनरैड संगमा
राजनीतिक दल	नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी)
शपथ ग्रहण की तिथि	06 मार्च 2018
प्रथम मुख्यमंत्री	विलियमसन ए. संगमा

मेघालय का इतिहास:

असम के दो जिलों को अलग कर मेघालय राज्य का गठन किया गया था। 21 जनवरी 1972 को जयंतिया हिल्स और यूनाइटेड खासी हिल्स को मिला कर मेघालय राज्य बनाया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के पहले मेघालय को सन् 1970 में अर्ध-स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया था। सन् 1971 में उत्तर-पूर्व अधिनियम क्षेत्र की मंजूरी के बाद मेघालय को राज्य के रूप में मान्यता मिली। इसके बाद राज्य को अपनी विधान सभा भी मिली।

मेघालय के मुख्यमंत्री:

वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा हैं। कॉनरैड संगमा ने 06 मार्च 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मेघालय के **प्रथम मुख्यमंत्री** विलियमसन ए. संगमा थे।

वर्ष 1972 से अब तक मेघालय के मुख्यमंत्रियों की सूची:

मुख्यमंत्री का नाम	पदमुक्ति	पदमुक्ति	दल/राजनीतिक पार्टी
विलियमसन ए. संगमा	02 अप्रैल 1970	21 जनवरी 1972	ऑल पार्टी हिल लीडर्स कांफ्रेंस
	21 जनवरी 1972	18 मार्च 1972	
	18 मार्च 1972	21 नवम्बर 1976	
	22 नवम्बर 1976	03 मार्च 1978	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
डार्विन डीएंगडो पुघ	10 मार्च 1978	21 फरवरी 1979	ऑल पार्टी हिल लीडर्स कांफ्रेंस
	21 फरवरी 1979	06 मई 1979	
बी. बी. लिंगदोह	07 मई 1979	07 मई 1981	
विलियमसन ए. संगमा	07 मई 1981	24 फरवरी 1983	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
बी. बी. लिंगदोह	02 मार्च 1983	31 मार्च 1983	ऑल पार्टी हिल लीडर्स कांफ्रेंस
विलियमसन ए संगमा	02 अप्रैल 1983	05 फरवरी 1988	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
पी. ए. संगमा	06 फरवरी 1988	25 मार्च 1990	
बी. बी. लिंगदोह	26 मार्च 1990	10 अक्टूबर 1991	हिल पीपल यूनियन (एचपीयू)
राष्ट्रपति शासन (11 अक्टूबर 1991 से 05 फरवरी 1992 तक)			
डी.डी. लपंग	05 फरवरी 1992	19 फरवरी 1993	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
एस. सी. मारक	19 फरवरी 1993	27 फरवरी 1998	
	27 फरवरी 1998	10 मार्च 1998	

मुख्यमंत्री का नाम	पदमुक्ति	पदमुक्ति	दल/राजनीतिक पार्टी
बी. बी. लिंगदोह	10 मार्च 1998	08 मार्च 2000	यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी
ए. के. माँवल्लोंग	08 मार्च 2000	08 दिसम्बर 2001	
फ़िलंडर एंडरसन खोंगलम	08 दिसम्बर 2001	04 मार्च 2003	स्वतंत्र
डी.डी. लपंग	04 मार्च 2003	15 जून 2006	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
जे.डी. रीम्बई	15 जून 2006	10 मार्च 2007	
डी.डी. लपंग	10 मार्च 2007	04 मार्च 2008	
	04 मार्च 2008	19 मार्च 2008	
डोंकुपर रॉय	19 मार्च 2008	18 मार्च 2009	यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी
राष्ट्रपति शासन (18 मार्च 2009 से 12 मई 2009 तक)			
डी.डी. लपंग	13 मई 2009	19 अप्रैल 2010	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
मुकुल संगमा	20 अप्रैल 2010	05 मार्च 2013	
	05 मार्च 2013	05 मार्च 2018	
कॉनराड संगमा	06 मार्च 2018	वर्तमान	नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी)

You just read: Meghaalay Ke Mukhyamantriyon Ke Naam, Kaaryakaal Aur Unaki Raajaneetik Party (varsh 1972 Se 2021)